

बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान ललितपुर को

ओडी नदी पुनर्जीवन सफल पहल पर कृषि मंत्री
ने किया सम्मानित ।







SHOT ON REDMI NOTES PRO
MI DUAL CAMERA



SHOT ON REDMI NOTES PRO
MI DUAL CAMERA

3 अगस्त 2018 ललितपुर राजकीय इण्टर कॉलेज ललितपुर सभागार में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के लोकप्रिय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ओड़ी नदी पुनर्जीवन सफल पहल के लिए बुंदेलखंड सेवा संस्थान ललितपुर के मंत्री बासुदेव सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है । कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान ने जिले के विकास के लिये अनेक रचनात्मक कार्य करते हुये ओड़ी नदी पुनर्जीवन के कार्य के लिये एक ऐतिहासिक पहल किया है और जनपद ललितपुर के जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ओड़ी नदी पुनर्जीवन के लिये एक रणनीति बनाकर मनरेगा के द्वारा बहुत ही नव सृजनात्मक काम करके ललितपुर जनपद में आदर्श कार्य किया है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिये सफल उदाहरण है । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय निर्माण, आवास, प्राकृतिक संसाधनों, जल स्रोतों को मुख्य रूप से ओड़ी नदी को जिन्दा करने का जिलाधिकारी द्वारा किया गया काम सदैव याद किया जाएगा । ओड़ी नदी से 13 गाँव के 25000 की जनसंख्या व 5000 किसान लाभान्वित होंगे । सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा । ओड़ी नदी के किनारे 51000 फलदार पौध रोपण किया जाएगा। फल फूल हरियाली पर्यावरण जल एवं भूमि का संरक्षण होगा। जिला अधिकारी मानवेन्द्र सिंह एवं सामाजिक संस्था बुन्देलखंड सेवा संस्थान के मंत्री वासुदेव सिंह एवं स्थनीय पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता से मड़ावरा क्षेत्र का विकास निश्चित होगा ।बुन्देलखंड सेवा संस्थान को सम्मानित किये जाने पर संस्थान के मंत्री बासुदेव सिंह ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौबे एवं जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह का हृदय से आभार प्रकट करते हुये कहा कि संस्थान सरकार समाज पंचायत प्रतिनिधि समुदाय के साथ मिलकर सदैव लोकहितकारी कार्य कर रहा है ।